



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 19 जुलाई, 2023

आषाढ़ 28, 1945 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 441/तीन-2023-7 (विविध)-14

लखनऊ, 19 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प0आ0-411

युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल तहसील सदर, जिला-रामपुर के ग्राम टिकटगंज, पसियापुर एवं आगापुर के नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट गाटा संख्या वाले क्षेत्र, जिसका कुल क्षेत्रफल 25.471 हे०/62.77 एकड़ है, को गोला चलाने के रेंज तथा पूर्ण सुरक्षा परिक्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है जिसमें दिनांक 01 मार्च, 2023 को प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 28 फरवरी, 2028 को समाप्त होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राधिकृत किया जा सकता है :-

1- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल युद्धाभ्यास के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से अपनी भूमि का ही प्रयोग करेगा।

2- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 के उपबन्धों का पालन करेगा।

3- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्ण सुरक्षा परिक्षेत्र में दर्शायी गयी भूमि पर युद्धाभ्यास के दौरान जीवन और सम्पत्ति की न्यूनतम क्षति हो।

4- कोई सार्वजनिक मार्ग, युद्धाभ्यास के दौरान बंद नहीं किया जायेगा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, युद्धाभ्यास के कारण निजी भूमि (फसलों) की हुई क्षति के मामले में युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का संदाय करेगा। यदि युद्धाभ्यास के दिवसों में मार्ग बंद कर दिये जाते हैं तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अभ्यास प्रारम्भ किये जाने के पूर्व मार्गों की संरक्षा करेगा और यातायात को रोकेगा।

5- यद्यपि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्ध उक्त खुले क्षेत्र में गोला चलाने के रेंज के सुरक्षा परिक्षेत्र हेतु लागू नहीं है, किन्तु वन संरक्षण के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल विद्यमान वृक्षों के साथ छोटे-छोटे वृक्षों का चरणबद्ध रूप से आरोपण करेगा जिससे कि वृक्षारोपण संहत हो जाय और क्षेत्र की ध्वनि प्रदूषण में भी कमी की जा सके।

6- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल युद्धाभ्यास के दौरान वन संरक्षण के लिए पूर्ण प्रबंध करेगा और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इस अवधि के दौरान कोई क्षति होने की स्थिति में नियमों के अनुसार प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

7- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमों के अनुसार, व्यक्ति के जीवन, सम्पत्ति, पशु (मवेशी), फसलों आदि के किसी क्षति के लिए प्रतिकर का संदाय करेगा। उक्त रेंज का कमान अधिकारी गोलाबारी रेंज के अन्तर्गत और उसके निकट रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगा।

8- केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एक वचन पत्र देगा कि वह भविष्य में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों से आवद्ध होगा।

9- उक्त भूमि का नक्शा और विवरण जिला रामपुर के कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

### अनुसूची

क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिला	तहसील	रा०नि० मण्डल	ग्राम	प०ह०नं०	प्राधिकृत सर्वे संख्याएं	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	रामपुर	सदर, रामपुर	रामपुर	टिकटगंज		74	0.0510
						76KH	0.0630
						126	2.8070
2-	रामपुर	सदर, रामपुर	रामपुर	आगापुर		819	1.7950
						820	0.1390
						821	1.1890
						822	0.5820
						823	0.4930
						824	0.0130
						825	0.1140
						826	0.1770
						827	0.1900
						828	0.7720
1	2	3	4	5	6	7	8
3-	रामपुर	सदर, रामपुर	रामपुर	पसियापुर जनुबी		67	0.0130
						68	0.2910
						69	0.2280
						70	0.3160
						84	0.1520
						85	0.0630
						86	0.6580

1	2	3	4	5	6	7	8
						89	1.6070
						94	0.1900
						96	0.2280
						97	0.4430
						98	0.7710
						99	0.2910
						100	0.4680
						101	0.1770
						102	0.1770
						103	0.2150
						104	0.4550
						105	0.2660
						106	0.3540
						107	0.5190
						108	0.2910
						109	0.2400
						110	0.1770
						111	0.1140
						112	0.1010
						113	0.3040
						114	0.1770
						115	0.3670
						116	0.2020
						117	0.2280
						118	0.2660
						119	0.3670
						120	0.2150
						121	0.2530
						122	0.1770
						123	0.1520
						124	0.1010
						125	0.1900
						126	0.3540
						127	0.1390
						128	0.1390
						129	0.1640
						130	0.1520
						131	0.3540
						132	0.3040
						133	0.3540
						134	0.2600
						135	0.3540
						136	0.3040
						137	0.2660
						138	0.2530
						139	0.4550
						140	0.0890

1	2	3	4	5	6	7	8
						141	0.1640
						142	0.1900
						143	0.2400
						144	0.0760
						145	0.2150
						146	0.1150
						147	0.1770
						148	0.1640

इस प्रकार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुर में करबला स्थित गोलाबारी रेंज की भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	कुल गाटों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	टिकटगंज	03	2.921	7.20
2.	आगापुर	10	5.464	13.46
3.	पसियापुर जनुबी	62	17.086	42.11
	<b>कुल</b>	<b>75</b>	<b>25.4717</b>	<b>62.7</b>

उपरोक्तानुसार संबंधित भूमि का नक्शा और खतौनी और तीन ग्रामों की सीमाएं निम्नलिखित है :-

पश्चिम- कृषि भूमि  
 पूरब- कृषि भूमि  
 उत्तर- कृषि भूमि  
 दक्षिण- कृषि भूमि

**टिप्पणी :-** ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्र का स्थल नक्शा, रामपुर के कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
 जितेन्द्र कुमार,  
 अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 441 /III-2023-7(vividh)-14, dated July 19, 2023 for general information :

No. 441 /III-2023-7(vividh)-14

*Dated Lucknow, July 19, 2023*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Manoeuvres Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. V of 1938), the Governor is pleased to define the area within Tehsil Sadar, Distt. Rampur, Village Ticketganj, Pasiyapur, and Agapur; gata no. specified in the Schedule below, total area of which is 25.471 Hectare/62.77 Acres, as firing range and absolute safety zone within which for a period of five years commencing on March 01, 2023 and ending with February 28, 2023 for carrying out field firing and artillery practice by the C.R.P.F. may be authorized subject to following conditions:-

1. C.R.P.F. shall prominently use its own land for the purpose of manoeuvres.
2. C.R.P.F. shall follow the provisions of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938.
3. C.R.P.F. shall ensure that there shall be minimum loss to life and property during manoeuvres on the land indicated in the Absolute Safety Zone.
4. No route for public shall be closed during manoeuvres. C.R.P.F. shall pay compensation as per the provisions of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938, in case of loss suffered by

the private land (crops) due to the manoeuvres. If, the routes are closed during the days of manoeuvres; then C.R.P.F. shall guard the routes and stop the traffic before starting of exercise.

5. Though the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 are not applicable to the safety zone of the said field firing range, but for the purpose of conservation of forest, C.R.P.F. shall plant small trees along with the existing trees in phases so that the plantation become compact and the noise pollution of the area can also be reduced.

6. C.R.P.F. shall make complete arrangements for the conservation of the forest during manoeuvres and C.R.P.F. shall also be responsible to pay compensation according to the rules in case of any loss during this period.

7. C.R.P.F. shall pay the compensation for any loss of life of person, property, animal (life stock), crops, etc. as per the rules. Commanding Officer of the said range shall solely be responsible for safety of the persons residing within and nearby of the firing range.

8. C.R.P.F. shall give an undertaking that it shall be bound by the conditions imposed by the Central Government or the State Government in future.

9. Map and details of land can be inspected in the office of Collector, District Rampur.

### SCHEDULE

Description of area is as following:-

Sr. no.	Distt.	Tehsil	R.I. Mandal	Village	T.A.N.	Authorised Survey Nos.	Area (In Hectare)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rampur	Sadar, Rampur	Rampur	Ticketganj		74	0.0510
						76KH	0.0630
						126	2.8070
2.	Rampur	Sadar, Rampur	Rampur	Agapura		819	1.7950
						820	0.1390
						821	1.1890
						822	0.5820
						823	0.4930
						824	0.0130
						825	0.1140
						826	0.1770
						827	0.1900
						828	0.7720

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Rampur	Sadar, Rampur	Rampur	Pasiyapur Janubi		67	0.0130
						68	0.2910
						69	0.2280
						70	0.3160
						84	0.1520
						85	0.0630
						86	0.6580
						89	1.6070
						94	0.1900

1	2	3	4	5	6	7	8
						96	0.2280
						97	0.4430
						98	0.7710
						99	0.2910
						100	0.4680
						101	0.1770
						102	0.1770
						103	0.2150
						104	0.4550
						105	0.2660
						106	0.3540
						107	0.5190
						108	0.2910
						109	0.2400
						110	0.1770
						111	0.1140
						112	0.1010
						113	0.3040
						114	0.1770
						115	0.3670
						116	0.2020
						117	0.2280
						118	0.2660
						119	0.3670
						120	0.2150
						121	0.2530
						122	0.1770
						123	0.1520
						124	0.1010
						125	0.1900
						126	0.3540
						127	0.1390
						128	0.1390
						129	0.1640
						130	0.1520
						131	0.3540
						132	0.3040
						133	0.3540
						134	0.2600
						135	0.3540
						136	0.3040
						137	0.2660
						138	0.2530

1	2	3	4	5	6	7	8
						139	0.4550
						140	0.0890
						141	0.1640
						142	0.1900
						143	0.2400
						144	0.0760
						145	0.2150
						146	0.1150
						147	0.1770
						148	0.1640

In this way the description of firing range land, which is situated at Karbala in C.R.P.F. Rampur, is as following:-

Sr. no.	Name of Village	Total No. of Gatas	Area (In Hectare)	Area (In Acres)
1.	Ticketganj	03	2.921	7.20
2.	Agapura	10	5.464	13.46
3.	Pasiyapur Janubi	62	17.086	42.11
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>25.471</b>	<b>62.77</b>

As per above, the map and khatauni of related land and the boundaries of three villages in combined form are as follows:-

West- Agriculture Land  
East- Agriculture Land  
North- Agriculture Land  
South- Agriculture Land

**Note :-** A site plan of the area specified above be inspected in the office of the Collector, Rampur.

By order,  
**JITENDRA KUMAR,**  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 452 राजपत्र-2023-(1471)-649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।